

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 15.10.2021\***

**\*थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,\***

**\*अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 01 करोड 80 लाख रूपये कीमत की 900 ग्राम फाइन क्वालिटी की चरस बरामद,  
मादक पदार्थ तस्करो हमीद गिरफ्तार ।\***

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन मे थाना तिलहर पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

दिनांक 15.10.21 की प्रातः को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सरयू पुलिया के पास से अभियुक्त हमीद को 900 ग्राम फाइन क्वालिटी की चरस के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 810/2021 धारा 8/17 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

**\*गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-\***

**1-हमीद अंसारी पुत्र इतवारी नि0 मो0 नजरपुर कस्बा व थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।**

**\*विवरण पूछताछ:-\***

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि चरस की तस्करी नेपाल से की जाती है तथा मैं जनपद पीलीभीत के बीसलपुर शहर से चरस लेकर आता हूँ । मेरी परचून की दुकान है उसी की आड मे चरस की छोटी छोटी पुडिया बनाकर महँगे दामों पर बेच देता हूँ । आज मैं चरस बीसलपुर से लेकर आ रहा था कि आपके द्वारा पकड लिया गया । पूछताछ के आधार पर प्रकाश मे आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

1. 900 ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 01 करोड 80 लाख रूपये कीमत)

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

मु0अ0सं0 810/21 धारा 8/17 एनडीपीएस एक्ट

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना तिलहर शाह0
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना तिलहर शाह0
3. कां0 विपिन कुमार थाना तिलहर शाह0
4. का0 शैलेन्द्र कुमार थाना तिलहर शाह0
5. का0 भूरा तोमर थाना तिलहर शाह0